/SP LIMITED	
yog Vihar, RIICO, Industrial Area	
gar - 335 002 / INDIA	******
9HR1988PLC030300	
svegan@yahoo.com, website: www.vikaswspltd.in	
91(154)2494512/2494552 Fax: 91(154)2494361/2475376	
	VSP LIMITED dyog Vihar, RIICO, Industrial Area igar - 335 002 / INDIA 39HR1988PLC030300 asvegan@yahoo.com , website : www.vikaswspltd.in 91(154) 2494512/2494552 Fax : 91(154) 2494361/2475376



May 03, 2024

То

The General Manager, Bombay Stock Exchange Corporate Relation Department, Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400001

Ref: Vikas WSP Limited Scrip Code:-519307

Subject: -Published Notice for Approval of Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter(Q-4) and year to date ended 31st March, 2023, Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter (Q-1) ended as on 30th June, 2023, Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter(Q-2) and six months ended 30th September, 2023 & Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter (Q-3) and nine months ended on 31st December, 2023 in Two Newspaper (Business Line and Pioneer)

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of the meeting of the audit committee, Board Meeting and Resolution Professional of the Company is scheduled to be held on Thursday, May 09, 2024 at **B-86/87, RIICO, Udyog Vihar, Industrial Area, Sri Ganga nagar-335002** at 11.00 A.M. inter alia, to consider, approve, take on records the Audited Standalone Financial Results for the fourth Quarter(Q-4) and year to date ended 31st March, 2023, Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter (Q-1) ended as on 30th June, 2023, Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Q-3) and nine months ended on 31st December, 2023 published in following two newspapers.

- (1) Business Line (English all Edition)- 03.05.2024
- (2) Pioneer (Hindi all Edition);03.05.2024

We hereby enclose clipping of each advertisement published in aforesaid newspapers for your kind information and record.

Gunan Km. Ka

Company Secretary

Regd. Office : Railway Road, Siwani - 125046 (India) Registration No. 05-30300, 88-89 New Delhi as PIc. Visit our Web Site : www.vikasvegan.com

 VIKAS WSP LIMITED	
B-86/87, Udyog Vihar, RIICO, Industrial Area	HALCH ACCENTER OF DE PRAME HALCH PERSONNEL AND
Sriganganagar - 335 002 / INDIA	
CIN : L24139HR1988PLC030300	
E-mail: vikasvegan@yahoo.com , website: www.vikaswspitd.in	
Telephone: 91(154) 2494512/2494552 Fax: 91(154) 2494361/2475378	VIII

Thanking You, Yours Faithfully, For VIKAS WSP LIMITED

FOR VIKAS WSP LIMITEL

hunian Kum Kum

Gunjan Kumar Karn Company Secretary Company Secretary cum compliance officer M.No.-A38298

V 1.5

(Vikas WSP Limited is under corporate insolvency resolution process pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. With effect from February 02, 2022, its affairs, business and assets are being managed by, and the powers of the board of directors are vested in, the Interim Resolution Professional, Mr. Darshan Singh Anand (IP Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-2018/10931, appointed by the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench by order dated 02nd February, 2022 under the provisions of the code, which was published on the website of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench on 02nd February, 2022 and continued as Resolution Professional by the 02nd committee of creditors(CoC) in its meeting held on 17th March, 2022 under the provisions of the Code.)

Encl: As above

news · bl · 9

₹ in Crores

BLUE STAR T on trust

ろ

BUILT

Coal India Q4 net rises 26% to ₹8,640 cr, aided by fall in total expenses

Mithun Dasgupta Kolkata

State-run coal miner Coal India on Thursday reported a 25.78 per cent yearon-year jump in its consolidated net profit to ₹8,640.45 crore for the fourth quarter last fiscal, aided by a fall in total expenses.

The coal behemoth's net profit had stood at ₹6,869.46 crore for the fourth quarter of FY23.

Revenue from operations, however, witnessed close to 2 per cent y-o-y decline at ₹37,410.39 crore for the fourth quarter of FY24 from ₹38,152.34 crore for the year-ago period, according to a stock exchange filing.

The company's total expenses during the period under review fell 8.34 per cent y-o-y at ₹28,298.41 crore compared to ₹30,873.68 crore. The decrease in total expenses was mainly due to a 20 per cent y-o-y fall in employee benefits expenses during the period.

Notably, prior to the implementation of the 11th version of the national coal wage agreement (NCWA-XI), provisions of ₹8,152.75 crore were recognised during the financial year 2022-23, and out of that ₹5,870.16 crore were recognized during the quarter ended March 31, 2023.

During Q4FY24, CIL's coal production soared by 7.8 per cent year-on-year at 241.75 million tonnes, while coal offtake grew 7.9 per cent at 201.66 million tonnes. During the period under review, net sales, however, fell 2.5 per cent y-o-y at ₹34,263.89 crore.

Total supply of coal through the fuel supply agreement (FSA) was 175.94 million tonnes during Q4FY24 and the average realisation per tonne from the FSA sales was ₹1,535.54. During the quarter, total supply of coal through the e-auction route was 22.57 million tonnes and the average realisation per tonne stood at ₹2,545.01.

FINAL DIVIDEND

CIL's board recommended a final dividend of $\mathbf{F}5$ per share for the financial year ended March, 2024, subject to the nod from the shareholders at the ensuing company's annual general meeting. This was in addition to the interim dividend of $\mathbf{F}20.50$ per share the company had already paid earlier in the fiscal.

The company posted a 17.8 per cent yo-y growth in its net profit at ₹37,369 crore for the financial year 2023-24. CIL's net profit during FY2022-23 stood at ₹31,723 crore.



KR Srivats

The Corporate Affairs Ministry (MCA) has filled the vacancies in the Appellate Authority for Chartered Accountants, Secretaries and Cost countants, bringing relief to hundreds of professionals who were unable to access this judicial forum due to posts, including the Chairperson, remaining vacant. Justice Suresh Kumar Gupta, a retired judge of the Allahabad High Court, has been appointed as Chairperson of this Appellate Authority, which was set up to hear appeals against the orders issued by the Disciplinary Committees of the three professional institutes -CA Institute, Cost Accountants Institute and Company Secretaries Institute. MCA has also appointed Rakesh Mohan, Sandip Garg, Wholetime Member, IBBI and Amit Anand Apte as Members (government nominees) of the Appellate Authority, sources said.



KK KK **Registered Office:** Kasturi Buildings, Mohan T. Advani Chowk, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020.

CIN NO.: L28920MH1949PLC006870, Telephone No.: +91 22 6665 4000, Fax No.: +91 22 6665 4152

BLUE STAR LIMITED

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

SR. NO.	PARTICULARS	QUARTER ENDED (UNAUDITED)	QUARTER ENDED (UNAUDITED)	YEAR ENDED (AUDITED)	YEAR ENDED (AUDITED)
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from Operations	3,340.16	2,630.48	9,732.78	8,008.19
2	Net Profit/(Loss) for the period				
	(before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	214.13	146.30	557.16	384.57
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	214.13	317.11	557.16	555.38
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax				
_	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	159.71	225.29	414.31	400.69
5	Total Comprehensive Income for the period				
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	158.69	224.11	413.60	409.61
6	Equity Share Capital (Face Value of the share - ₹ 2/- each)	41.12	19.26	41.12	19.26
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per	71.12	19.20	71.12	19.20
<i>'</i>	balance sheet of previous accounting year				1,311.39
8	Earnings Per Share (EPS) of ₹2/- each (not annualised*)				.,
Ū	a) Basic	*7.77	*11.70	20.77	20.80
	b) Diluted	*7.77	*11.70	20.77	20.80
9	Net Worth	2,609.48	1,330.01	2,609.48	1,330.05
10	Paid-up debt capital / Outstanding Debt	166.62	577.64	166.62	577.64
11	Debt equity ratio	0.06	0.43	0.06	0.43
12	Capital redemption reserve	2.34	2.34	2.34	2.34
13	Debt service coverage ratio (DSCR) (not annualised*)	*32.07	*11.19	1.07	1.96
14	Interest service coverage ratio (ISCR) (not annualised*)	*32.07	*11.19	15.09	10.83
15	Current Ratio	1.30	1.12	1.30	1.12
16	Long term debt to working capital	0.00	0.55	0.00	0.55
17	Bad debts to account receivable ratio	0.02	0.02	0.02	0.02
18	Current liability ratio	0.97	0.93	0.97	0.93
19	Total debt to total assets	0.03	0.11	0.03	0.11
20	Debtors turnover (No. of days)	45.99	46.05	66.16	62.65
21	Inventory turnover (No. of days)	52.85	62.55	70.32	76.10
22	Operating margin (%)	7.27%	6.83%	6.87%	6.18%
23	Net profit margin (%) (After exceptional income)	4.78%	8.56%	4.26%	5.00%

Notes:

N/

と

*

*

Yar

₩

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com), and on Company's website (www.bluestarindia.com). The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024 are given below.

2 Pursuant to approval given by the shareholders vide postal ballot on June 8, 2023, the Company has issued 9,63,13,888 fully paid-up bonus equity shares of ₹ 2/- each in the ratio of 1 (One) equity share of ₹ 2/- each for every 1 (One) existing equity share of ₹ 2/- each during the year ended March 31, 2024. Accordingly, the earnings per share has been adjusted for previous periods'/ year and presented in accordance with Ind AS 33 - Earnings Per Share.

3 The Company raised capital of ₹1,000 crores through Qualified Institutions Placement ("QIP") of equity shares. The Executive Management Committee of the Board of Directors of the Company, at its meeting held on September 22, 2023, approved the allotment of 1,29,87,012 equity shares of face value ₹2/ each to aligible investors at a price ₹770 per equity share (including a promium of ₹768 per equity share)

The Appellate Authority has been defunct in the last several months due to vacancies not filling.



- shares of face value ₹ 2/- each to eligible investors at a price ₹ 770 per equity share (including a premium of ₹ 768 per equity share).
- 4 The Board of Directors have recommended the final dividend of ₹ 7 per equity share of ₹ 2/- each for FY 23-24 (FY 22-23, final dividend of ₹ 6 per equity share). ₹ in Crores


		STANDALONE			
SR. NO.	PARTICULARS	QUARTER ENDED (UNAUDITED)	QUARTER ENDED (UNAUDITED)	YEAR ENDED (AUDITED)	YEAR ENDED (AUDITED)
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Revenue from Operations	3,122.52	2,426.77	8,998.88	7,353.13
2	Profit before tax	191.80	302.50	491.69	504.60
3	Profit for the period / year	143.52	217.06	367.50	366.58
4	Total Comprehensive Income	142.87	216.54	365.82	366.42

For BLUE STAR LIMITED

Date: May 02, 2024 Place: Mumbai Chairman ai www.bluestarindia.com

Vir S. Advani Chairman and Managing Director (DIN: 01571278)

BLUE STAR DELIVERS EXCEPTIONAL FINANCIAL RESULTS IN FY24



ND-NDE



जिंदल व सुशील ने भरे नामांकन

करुक्षेत्र। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायक्त शांतन ने कहा कि करुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के चौथे दिन 12 नामांकन पत्र दाखिल किए गए है, इन नामांकन पत्रों में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल व उनकी कवरिंग प्रत्याशी शालू जिंदल ने 3-3 नामांकन, आप पार्टी के सुशील गुप्ता ने 2 नामांकन व उनकी कवरिंग प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने 1 नामांकन आजाद प्रत्याशी अश्विनी शर्मा हरितवाल, फुल सिंह व राष्ट्रीय गरीब दल (आरजेडी)प्रत्याशी प्रदीप सैनी ने 1-1 नामांकन दाखिल किया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से वीरवार तक 22 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके है।

PUBLIC NOTICE To be known to all, VEENA RAGHU VANSHI W/O SH. VIVEK RACHUVANSHI R/o FLAT NO.276, TOWER-4, SUPPENE ENCLAYE, PLOT NO.14, MAYUR VIHAR PH-1. DELH-11009). ewner/purchaser of FLAT NO. 276, TOWER-4, SUPREME CGHS LTD., SUPPENE ENCLAYE, PLOT NO.14, MAYUR VIHAR PH-1, DELH-111009). The atomic and the applied for conversion of the atomic and the above said flat has been lost. An FLR./NCR/LR NO.1888/41/2024 dated U/05/2025 to this effect has been lodged in ES. Crime has been lost: An El R./NCR/IR N0.1688741/2024 diated U/05/2025 to link effect has been lodged in FS. Crime Branch, Delhi. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9810447617 within 15 days from the date of publication or driss notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to President/ Secretary, Supreme CGHS Ltd. or Dejuty Director (Group Nousing) or Director (Group Nausing). Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi-110023. Naveen Accanval (Advocate)

Naveen Aggarwal (Advocat Ch.No. M-7, Near SBI. Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

Public Notice Subsequently, Mr. Ajay Kumar Mahto & Mrs., Renu Devi are in the process of mortgaging the said SMFG India Home Finance Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 77 days acad will not be considered holding

ect to the said property or the interest Min respect to the said property of the interests of our cilent. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-day period by contacting Law Veritas:North (Advocates & Legal Consultants)at Office No. 11, 1st Floor, Builden No. A-44/A, Sector-16, Nolda, Uttar Pradesh-201301; Landline(s):+910120-3101683; e-mail: accounts/01/worth in

7-days period will not be considered binding

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सचित किया जाता है कि श्री जीवन सिंह ने प्लॉट संख्या-ए-45ए और 45बी, क्षेत्रफल 300 वर्गं गज, खसरा संख्या-25/7, ग्राम मटियाल एक्सटेंशन उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, 12 01 2000 के जोपीए के अनसार श्री दलीप कप और श्री प्रदीप कपूर द्वारा एटीएँस और वसीयत साथ 150 वर्ग गज क्षेत्रफल के लिए और 23.05.2000 के जीपीए के अनुसार एटीएस और वसीयत के साथ श्री दलीप कपूर और श्री प्रदीप कपूर द्वारा 150 वर्ग गज क्षेत्रफल के लिए निष्पदित है, अब श्री जीवन सिंह उपरोक्त संपत्ति के निर्विवाद मालिक हैं।

अथवा कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी, जिसका उव संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार, शेयर, बिक्री, अनुबंध, पट्टा, लाइसेंस, उपहार, कब्जा, कानूनी वारिस, साझेदार या भार के रूप में कोई दावा या अधिकार है, उसे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर अपने शेयर या दावे, यदि कोई हो, के बारे में नीचे दिए गए पते पर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में सचित करन आवश्यक है। नोटिस अवधि को समाप्ति के बाद, ऐसे व्यक्ति के दावे, यदि कोई हो, को शुन्य और अमान्य ना जाएगा और साथ ही ठन्हें माफ कर दिया जाएग और हमारे ग्राहक पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा

अजय कुमार गिरी अधिवक्ता एच.नं. 26/161, बेसमेंट, विक्रम विहार, लाजपत नगर 4, नई दिल्ली 11002

प्रपत्र सं. यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग। के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसार) . इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी धिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, इसके पंद्रह दिनों के बाद लेकि इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले केंद्री? पंजीकरण रजिस्टार के पास एक आवेदन किय जाना प्रस्तावित है। सेंटर (CRC) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7,

PUBLIC NOTICE We, Sh. Subhash Chander S/o Late Sh.

Ram and Smt Neetu Khatri ubhash Chander both R/o Shri Subhash Chander both 19/287, Gali no.5, Geetanjali Park, West New Delhi-110046. agarpur, Sagarpur, New Delhi-110046, has disowned/debarred our son namely Sh. Rohit & his wife Smt Nisha resident of R2-L-19/287, Gali No.5, Geetanjali Park, West Sagarpur, New Delhi-110046, from all his sagarbur, di immunobla paraetaka and noveable and immoveable properties and ancelled all his relations with them in future as they are not obeying and respecting we will not be responsible for any acts committed by them and if any one deals with them shall be doing at his/ her own costs and risks, we shall not be held liable or responsible for the same in any manner in future. that it is our true statement and correct statement.

Public Notice

is to inform the general public that Mr. Naresh mar Guptais the sole owner of Property bearing 517/1, built on plot no. 58-B. area measuring 517/ no.517/1, built on plot no. 58-B, area measuring 368.99 sq. yds., odd of Khastar no.451/43, situated in the area of village Jhlimit Tahirpur, in the abadi of Shahdara, Industrali area (Dilshad Garden City, West Bick) lilaga Shahdara Delhi. This ownership was legally acquired through a Sale Deed dated 31.05.2005 executed by Mr. Sanjay Laumasin favour of Mr. Naresh Kumar Gupta in respect of Mr. Naresh Kumar Guptais now the process

www.waresh Rumar Guptals now the process mortgaging the aforementioned Propertywith SMF6 India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.).Any objections or concern regarding this transaction should be raised within period of 14 days from the date of this public notice Any objections submitted after the completion or completion. is 14-days period will not be considered bindin with respect to the said property or the interests

our client. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 14-day period by contacting Law Veritas:North (Advocates & Legal Consultants)at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-4440, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s):+910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in

PUBLIC NOTICE

This is here by inform to general

public at large that my client Mrs.

Preksha Gupta D/o Late Anita

Gunta and Late Rakesh Kumar

Rohini, Delhi-85, is the owner of the

property i.e. office no. 320,

measuring 400 sq. ft., situated at

Agarwal Modern Bazaar, Lawrance

Road, Delhi-110035, by virtue of

not traceable/ misplaced.

 γ THE PIONEER β

ASSIFIED

CHANGE OF NAME

I. Gita Goel M/OPrachi Bansal

R/o Flat No-802, Marvella

Tower, Mahagun Moderne,

Sector-78, Near MahagunMart

Noida, Gautam Buddha

Nagar-201301, Uttar Pradesh

have changed my name to

Gita Rani Goyal for all

I, Tribhuvan Kumar Goel F/O

Prachi Bansal R/o Flat No-802,

Mahagun mart Noida, Gautam

Buddha Nagar-201301, Uttar

Pradesh have changed my

name to Tribhuvan Kumar

I, NARENDER SINGH alias

NARIENDER SINGH S/O

MAHABIR SINGH R/O ikkas

Goyal for all purposes.

PD(401)A

PD(402)A

PD(406)A

purposes.

Gupta

R/o F-26/113, Sector 7,

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Madan La Kukreja 5/o Late Shri Sawan Mal Kukreja R/o DDA Janta Flat No.8-2, First Floor, Pocket O-17, Dishad Garden, Delhi-1100 95 has applied for conversion of the DDA Janta Flat No. 2-8, First Floor, Pocket O-17, situated at Dishad Garden, Delhi-110095 from lease hold to free hold in DDA. The Original Demand Letter of the above flat have been lost. An NCR to this effect has been ledged in 8.5. Crime Branch in wide

Original Demand Letter of the above hat have been lost. An NCR to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch in vide S.O.No. 430/2014 LR No.1692882/2024 dated 02.05.2024. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above name, derson at above address/phone No. 9910902889 within 15 days from the date of publication of this notice.The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) H or Director (H)-1, D Block, 3" Floor, Vikas Sadan , INA, New Delhi.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे मुवक्किला श्रीमति मोनिका बवेजा पुत्री श्री रमेश चन्द्र एवं पत्नी श्री मनीष बवेजा निवासी 76-77, यू.जी.एफ. जेड ब्लॉक, दयाल मैट्रो पिलर नम्बर 690, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली-110059, मेरी मुवक्किला मोनिका बवेजा के पति मनीष बवेजा से अगर कोई भी रूपये-पैसो व अन्य किसी भी प्रकार का लेन-देन करता है तो वह अपने जोखिम पर करें इसमे मेरी मुवक्किला मोनिका बवेजा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। Sandeep Dedha (Advocate) Chamber No K-28 Tis Hazari Court Delhi -110054

कार्यालय नगर मेजिस्ट्रेट सैक्टर-19, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

पत्रसं 324/एस.टी.-सी.एम./2024 दिनोक 22 अप्रैल, 2024

सार्वजनिक सूचना

श्री डेनिस कैम्पबेल पुत्र श्री सैम्यूल कैम्पबेल निवासी पी-1203, सुपरटेक इकोसिटी, सेक्टर-137, नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. एवं सुश्री स्वाति शास्त्री पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री निवासी 2 सी/87, एमआईजी वृन्दावन

योजना-2 रायबरेली रोड, लखनऊ,उ. प्र.-226025 ने विशोष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति

अपनी आपत्ति/आपत्तियां अघोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 21.05.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। **प्र. नगर मेजिस्टेट⁄ विशेष विवाह**

अधिकारी गौतमबुद्ध नगर।

PUBLIC NOTICE Smt. Simmi Katval wife of Shri Baieev Katv

resident of GD-133, Pitampura, Delhi 110034 is daughter of my client Sm Kamlesh Chhabra wife of Late Shri Kristia Lal Chhabra resident of 155, Tagore Park Delhi-110009 The said Smt Simmi Katva her husband and children have becom sing my said c for their greed from last several years Therefore, my above said client Smt Kamlesh Chhabra has severed all kinds of relationship with her daughter Smt. Simm Katyal, husband and children of said Smt Simmi Katval and has disowned them and debarred them from inheriting any kind of movable and immovable property owned by my above said client. Any person dealing with them will do so at their own risk FANISH K. JAIN ADVOCATE D-847. BASEMENT SARASWATI VIHAR Delhi-110034 सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवविकल विनोद सिंह पुत्र श्री सुरेश पाल सिंह व रोशनी देवी पत्नी विनोद सिंह दोनो निवासीगण बी-111, गली नं0-8 फेस-10, शिव विहार, करावल नगर, नोर्थ-ईस्ट, दिल्ली-110094 ने अपनी पुत्री अन्तु को उसके दुर्व्यवहार, गल आचरण व अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने के कारण अपनी समस्त चल- अचल सम्पत्तियों से बेटखलकर सम्बन्ध- विच्छेद कर लिए है उसके किसी भी कार्य/लेन-देन हेतु मेरे मुवक्किलगण जिम्मेदार नहीं होंगे।

संजीव कमार गिल) अधिवक्ता Ch. No. E-419,4th Floor, KKD Court Shahdara. Delhi-110032

> विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड सीआईएनः L24139HR1988PLC030300 पंजीकृत कार्यालयः रेलवे रोड, सिवानी, हरियाणा-127046 भारत

कॉर्पोरेट कार्यालयः बी–86/87 उद्योग विहार रीको, औद्योगिक क्षेत्र, श्री गंगानगर, राजस्थान

वेबसाइट: www.vikaswspltd.in ई-मेल आईडीः csquianvikaswspltd1984@gmail.com फोन: 91(154) 2494512/2494552,

फैक्स: 31(154) 2494361 / 2475376 सूचना तद्ववारा सचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति

और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम-2015 (''लिस्टिंग विनियम'' के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29, 33 के जनुसार कि बोर्ड की बैठक-लेखा परीक्षा समिति और कंपनी के समाधान पेशेवर की बैठक गुरुवार मई 09, 2024 को बी-86/87 रीको उद्योग विहार, औद्योगिक क्षेत्र, श्री गंगा नगर-335002 में सुबह 11:00 बजे अंतः क्रिया-परीक्षित अभिलेखों पर विचार करने. अनुमोदन लेने, चौथी तिमाही (क्यू-4) और वर्ष से अब तक 31-मार्च-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम-पहली तिमाही (क्यू-1) के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम 30-जून-2023 को समाप्त हुए-तिमाही (क्यू-2) के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम और 30-सितंबर-2023 को समाप्त छड़ महीने और तिमाही (क्यू-3) के लिए अलेखापरीक्षित

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम और 31-दिसंबर-2023 को समाप्त नौ महीने के लिए आयोजित की जानी है। विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड हेतु रिजॉल्यशन प्रोफेशनल के आदेश से (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एक कंपनी) हस्ता/-गुंजन कुमार कर्ण कंपनी सचिव

श्री दर्शन सिंह आनंद के अनुमोदन से जारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आईबीबीआई रजि. नं IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931

[See Regulation-15 (1)(a)]/16(3) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302 015 Case No.: OA/596/2023 Summons under sub-section (4 of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Deb Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No. 11756 ICICI BANK LIMITED VS **BIJENDER SINGH**

(1) BIJENDRA SINGH S/O. SH. RAM KALA HOUSE NO 4125, 2ND FLOOR, I P EXTENSION SAINIK COLONY, SECTOR 49, FARIDABAD, HARYANA- 120 001 ALSO AT-

BIJENDRA SINGH S/O SH RAM KALA, ADDRESS FLAT NO. 706, 7TH FLOOR, BLOCK A AURIC PRIME SUITES, PLOT NO. A AND B, KHASRA NO. 994/1, 1001/1, 1002, VILLAGE JAISINGHPURA BASS, BHANKROTA, TEH. SANGANER JAIPUR, RAJASTHAN- 302 011 ALSO AT-

BIJENDRA SINGH S/O. SH RAM KALA, ADDRESS RICHA GLOBAL EXPORTS PRIVATE LIMITED, 215, PHASE I, UDYOG VIHAR, GURGAON, HARYANA -120 010

(2) RAM KALA S/O. SH. GAJJAN SINGH, HOUSE NO 4125, 2ND FLOOR, I P EXTENSION SAINIK COLONY SECTOR 49 FARIDABAD HARYANA- 120 001 आसपास

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that my client Vijay Mehta is in process to purchase the Property bearing No. 1215 Old & New no. 1X1 5455, area measuring 56 s., vds., out of khasra No. 262 and 264 situated atabadi Amar Mohalla, old Seelampur, Reghubar Pura No. 02, Gandhi Nagar, in the area of Village Seelampur, Illaga Shahdara, Delhi-110031 (taking loan from DCB Bank) from Kish Nandan Shah having acquired the same vide Sale Dead dated 24, 06, 2022 executed by Rina Arora alias Rina (Doc. No. 6286). whereas site itas lost a 6PA dated 27/2/1974 executed by Mir. Gurdial in favour of Indra Wati been lodged for that on dated 30/4/2024 All person(shaving any cliam against or in respect of MMEET उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड गूनिट नं. 809–815, 8वीं मंजिल मार डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर

सार्वजनिक सचना सचना आम जनता को जम्मीद हाउसिंग फाइनें लिमिटेड की नोएडा शाखा के लिए है जोकि दिन सूचित करने 024 से प्रभावी होगा। been lodged for that on dated our;4:2024 All personis having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership

सेंग फाइनेंस प्राइवेट लिगि आर. सी मार्केंट प्रथम तल. दादरी मेन रोड सलारपुर भागे के विपरीत, नोएडा-201304 (यू.पी.) को उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिते द्वितीय तल, ओम कॉम्पलैक्स, नया बांस, गाँव, सैक्टर-15, नोएडा-201301 यू.पी.

अधिक जानकारी के लिए कपया संपर्क करें उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड टोल फ्री: 1800-212-6127

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

PUBLIC NOTICE

ment, maintenance, bequest, partnership ion, lease, sublease, tenancy, license, lien

possession, lease, sublease, tenancy, ucence, ucen, charge, piedge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned. Kamal Kant Gupta (Advocate) Unit No. FF-2, First flow, Mahlauxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राजेश कुमार वर्मा और नगीना को 18.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLVAS00268009 की राशि रू. 10,74,412.05 (रूपये) दस लाख चौहत्तर हजार चार सौ बारह और पाँच पैसे मात्र) और 07.02.2022 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 10,74,412.05 (रूपये दस लाख चौहत्तर हजार चार सौ बारह और पाँच पैसे मात्र) 07.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फावनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एफएफ-3, पहली मंजिल, बाएं हाथ की ओर, प्लॉट नंबर-सी-6, एसएलएफ वेद विहार, लोनी गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-200111।

दिनांक : 27.04.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :गाज़ियाबाद	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेव

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार पवन कुमार और माला को 23.12.2022 को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00465196 की राशि रू. 20,15,950.69(रूपये) बीस लाख पंद्रह हजार नौ सौ पचास और उनहत्तर पैसे मात्र) और 15.12.2022 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 20.15.950.69(रूपये) बीस लाख पंद्रह हजार नौ सौ पचास और उनहत्तर पैसे मात्र) 15.12.2022 के अनुसार और उस पर व्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उपरी तल मंजिल पर फ्लैट नं. यूजीएफ-2 (एम.आई.जी.) जिसका कवर्ड क्षेत्र 550 स्क्वे. फीट जो 51.09 स्क्वे. मीटर्स के बराबर (बाएं हाथ पीछे की ओर), डीएलएफ अंकुर विहार में प्लॉट नंबर-डी-8/12 पर निर्मित, गाँव लोनी में स्थित, परगना और तहसील लोनी, गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश।

	कब्ता सचना
स्थान : गाज़ियाबाद	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड
दिनांक : 27.04.2024	प्राधिकृत अधिकारी
	सहा/-

(अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार कुमार कुलदीप उर्फ कुलदीप कुमार और पूनम को 21.11.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00351329 की राशि रू. 13,95,647.89 (रूपये तेरह लाख पचानवे हजार छह सौ सैंतालीस और नवासी पैसे मात्र) और 16.11.2022 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना द जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम ह के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वय करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 13,95,647.89 (रूपये तेरह लाख पचानवे हजार छह सौ सैंतालीस और नवासी पैसे मात्र) 16.11.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

प्लैट नं, एफएफ-2, पहली मंजिल पर, (छत के अधिकार बिना) सामने बाएँ हाथ की ओर, जिसका कल कवर्ड एरिया मापन 51.09 स्क्वेअर मीटर्स के बराबर 550 स्क्वेअर फीट, प्लॉट नं. बी-11/4 पर स्थित / निर्मित, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाँव सदुल्लाबाद गाज़ियाबाद -201014, उत्तर प्रदेश, जो निम्ननुसार परिबद है: पूर्व की ओर : प्लॉट नं. बी-11/5 पश्चिम की ओर : फ्लैट नं. एफएफ-1(एमआईजी)

उत्तर की ओर ः 12 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण की ओर : फ्लैट नं. एफएफ-5(एलआईजी) सही/ प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 27.04.2024 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गाज़ियाबाद

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

जब कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार मनीष कुमार वाधवानी और भावी मनीष वाधवानी उर्फ मिनती बलराम फुलवानी को 26.06.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNDA00492859 की राशि रू. 20,49,494.52 (रूपये बीस लाख उनचास हजार चार सौ चौरानवे और बावन पैसे मात्र) और 19.06.2023 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 20,49,494.52 (रूपये बीस लाख उनचास हजार चार सौ चौरानवे और बावन पैसे मात्र) 19.06.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण पहली मंजिल पर फ्लैंट नं. एफएफ-1 (एम.आई.जी.) (छत के अधिकार बिना), बाएं हाथ पीछे की ओर, जिसका कवर्ड क्षेत्र 500 स्ववे. फीट यानि 46.45 स्ववे. मीटर्स, प्लॉट नंबर बी-13/6 पर निर्मित, डी.एल.एफ अंकुर विहार, हदबस्त सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद -201102, उत्तर प्रदेश जो निम्ननुसार परिबध्द है -पूर्व : 9 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम : फ्लैट नं. एफएफ-2 उत्तर : फ्लैटनं. एफएफ-4

दक्षिण : प्लॉट नं. बी-13/5 सही/ प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

दिनांक : 27.04.2024

स्थान : गाज़ियाबाद

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जवार अमित गुप्ता और अमोल कुमार गुप्ता को 23.03.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDIP00176686 की राशि रू. 14,48,467.26 (रूपये चौदह लाख अड़तालीस हजार चार सौ सड़सठ और छब्बीस पैसे मात्र) और 21.03.2023 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है । विशेषतः कर्जवारों और सामान्यतः जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 14,48,467.26 (रूपये चौदह लाख अड़तालीस हजार चार सौ सड़सठ और छब्बीस पैसे मात्र) 21.03.2023 के अनुसार और उस पर व्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।



8 सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुप्राम (हरियाणा), पिन कोड-122050 कि पाकोपेरी फैशन, हाउस एलएलपी (एलूएलपीआईएनू: प्रपुराई-4232), ए एलएलपी को केपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहतू शेयूरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप मे पंजीकृत किया जा सकता है ।

पजाकृत किया जा सकरता है। 2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों और शर्द सहित हर प्रकार, प्रकृति और विवरण के परिधान पहनने वाले निर्माताओं, अ्पातकों और निर्यात्कों, थोक और ानमाताआ, आयातका आर नियातका, थोक और खुदरा डीलरों के व्यवसाय को आगे बढ़ाना। बुश-शर्ट, पायजामा सूट, बनियान, अंडरवियर सुरा महिलाओं के लिए फाउंडेशन परिधान, ब्रेसियर, मातृत्व बेल्. इत्यादि।

इत्यादि । 3. प्रस्तावित कंपनी के ड्रापट ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति का निरीक्षण पंजीकृत पते 312-बी, पॉकेट-सी, चरण- ॥, पूर्वी दिल्ली, मयूर बिहुार, दिल्ली, भारत, 110091 पर किया जा संकता है।

विश्व जा सकता हो 4. इसके द्वारा सुचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपति करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, भारतीय कॉपरिट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6.7, 8, सेक्टर 5, (जोड़जोडसीय), प्याट नबर ठ.7, ठ. संक्टर ठ., आईएमटी मानेसर जिला गुरुप्राम (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है।, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, एक प्रतिकंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

आवेदकों का/के	नाम
हस्ता./- कुणाल कश्यप (नामित पार्टनर DPIN: 07559675	0
हस्ता./- विजय शर्मा (नामित पार्टनर) DPIN: 07556812	
हस्ता./- मणि शर्मा (नामित पार्टनर) DPIN: 07556834	
दिनांक: 30/04/2024	स्थानः दिल्ली

SALE NOTICE

The under mentioned Assets will be sold through auction on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" for recovery of dues as per court orders, in the following cases:-

Case Details	Asset Details
ICICI Bank Vs. Jitendara	Vehicle No. UP16FT8014, Make and
Bhati And Others,	Model- Ashok Leyland Partner, Manu
CS(Comm) 2690/21	Year- 2018

Auction Date: May 15, 2024 From 11:00 am to 2:00 pm. Place of Auction: Mahakal Parking yard, Khasra No 527 Village Banthla Near Indane Gas Plant Loni Ghaziabad - UP. 201102 Contact Person: Swapnil Upadhyay (8126013708) Rohit Shrivastava (8657476284)

Terms of Sale

The particulars of the said asset specified herein above have been stated to the best of the information and knowledge of the undersigned, who shall however not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars. The interested participant/s are therefore requested, in their own interest, to satisfy himself / themselves/ itself with regard to the said asset and other relevant details pertaining to it before submitting the bids. All bidders are required to come at auction site with original KYC documents to participate in the auction.

Successful bidder shall have to deposit sale amount within 5 days from the approval date by the way of pay order/demand draft/RTGS/NEFT. The intending bidders may visit at ICICI Bank Ltd, Shal tower Plot no. 23, New Rohtak Road Karol Bagh, Delhi- 110005 for details and inspection of the said hypothecated vehicles.

Public Notice of Bank of Baroda

This is to inform the general public that Bank of Baroda, Maurya Enclave Branch, Delhi Ikas (12) Jind Harvana-126102 have changed my intends to accept the under mentione property standing in the name of Mr. Sanji name to NARENDER SINGH. Anand (Present owner), and intendin purchaser i.e., (1) Mr. Madan Lal S/o M Prahlad Rai & (2) Mr. Sachin Garg S/o M Madan Lal, as a security for a loan/cred PUBLIC NOTICE facility requested by one of its customers in case anyone has got any right/ title interest/claims over the under mentione General public is hereby informed that my client Ashok Kumar S/o Sh. Ramesh property, they are advised to approach th Chand R/o Kh. No. 31/8/2 and 31/13, Bank within Seven days along with necessary proof to substantiate their claim. If no response is received within Seven days, it is Ground Floor, Uttrakhand Enclave Uttarakhand Colony, Part-2, Burari, Delhi presumed that the property in free of an 10084, has severed all his relations charge/claim/ encumbrance and Bank sha from his daughter Tanu Varma due to her proceed with the mortgage. Details of Property: A Freehold Residential Propert disobedience and cruel behaviour towards my above named client. My No.C-205, area measuring 325 Sq. Yds. (i.e client has disowned and debarred her 271.73 Sq. Mtrs.), Block-C, Situated a Defence Colony, New Delhi- 110024 from all his moveable & immovable East: 20 Fts Wide Road properties and anyone dealing with them West: 40 Fts Wide Road in future in any manner whatsoever shall North: Property No. 204 do so at their own risk and consequences South: Property No. 206 Branch Details/Contact No. and my client shall not be responsible for any acts, deeds and things done by said Maurva Enclave Branch, Delhi daughter Phone No: 011-27318741,43 & 9780433525 Sanjeev Gupta (Advocate) 9811154597

HANSRAJ YADAV (Advocate) 74, P.S. RATHI BLOCK, TIS HAZARI COURTS, DELHI PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that M/s. Amero Buildoon has acquired Property area neasuring 665 sq. mtrs. + 460 sq. mtrs mtrs., (total area measuring 3125 o. 00028, Khasra No. 113min 2000 sq. m Khata No. Mirzapur Pargana Dankaur, Tehsil and Distt. Gautam Budh Nagar, U P vide Sale Deed Gautarn buon Nagar, C P Vide Sale Deed dated 14.02.2020 executed by Mr. Narender Kumar and Sale Deed dt 04.11.2023 executed by Mr. Narender Kumar and Sale Deed dt 04.11.2023 executed by Mr. Guishan Bhati, Now M/s. Amero Buildocn is the undisputed owner of above said property. OR

Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share sale, agreement, lease, license, gift possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the indersioned within 07 days from the date o publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims f any, of such person shall be treated nul and void and also treated as waived and not binding on our client. Ajay Kumar Giri (Advocate) OFFICE: 26/161. LGF.

kram Vihar Lajpat Nagar 4, New Delhi. 110024

Marvella Tower, Mahagun ALSO AT-Moderne, Sector-78, Near

RAM KALA S/O. SH. GAJJAN SINGH, ADDRESS FLAT NO. 706, 7TH FLOOR, BLOCK A, AURIC PRIME SUITES, PLOT NO. A AND B, KHASRA NO 994/1.1001/1.1002, VILLAGE JAISINGHPURA BASS, BHANKROTA, TEH-SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN- 302 011

SUMMONS

WHEREAS, OA/596/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 05/04/2024. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 25,77,560/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-(i) to show cause within thirty days f the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over security interest is created and/ o other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 14/06/2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date:

10/04/2024. Signature of the Officer Authorised to issue summons

ASSISTANT REGISTRAR Debts Recovery Tribunal, Jaipur

साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार प्रिंस कुमार श्रीवास्तव और धीरंजय कुमार को 13.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00297140 की राशि रू. 11,09,490.31 (रूपये) ग्यारह लाख नौ हजार चार सौ नब्बे और इकतीस पैसे मात्र) और 10.02.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू., 11,09,490.31 (रूपये) ग्यारह लाख नौ हजार चार सौ नब्बे और इकतीस पैसे मात्र) 10.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल पर फ्लैट नं. एफएफ-4 (एल.आई.जी.) जिसका कवर्ड क्षेत्र लगभग 350 स्ववे. फीट (32.51 स्ववे. मीटर्स) (बाएं हाथ पीछे की ओर), छत के अधिकार बिना, ब्लॉक-ए, प्लॉट नंबर ए-130, एसएलएफ, वेद विहार, गाँव सादुल्लाबाद में स्थित, परगना और तहसील लोनी, गाज़ियाबाद -201001, उत्तर प्रदेश । सही/

दिनांक : 27.04.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान ः गाज़ियाबाद	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार चंदा दास और मनोज कुमार दास को 02.02.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00241173 की राशि रू. 17,15,430.49 (रूपये सत्रह लाख पंद्रह हजार चार सौ तीस और उनचास पैसे मात्र) और 02.02.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर सांक्रेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 17,15,430.49 (रूपये सत्रह लाख के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ पंदह हजार चार सौ ती इंडियाबुल्स हाउसिंग फ

उधारकर्ताओं का ध्यान अ त्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

स्पार्टेक स्पोर्ट्स विलेज से पहचाने जानेवाली परियोजना में, ब्लॉक/टावर बी 1/बी 1 में, पंद्रहवीं मंजिल पर, यूनिट नं. 1501, जिसका सुपर एरिया 897 स्ववे. फीट , एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, स्पोर्ट्स सिटी, प्लॉट नंबर एससी 02 पर स्थित, सेक्टर 27 जीआर नोएडा, नोएडा-201305, उत्तर प्रदेश

दिनांक : 27.04.2024

स्थान : नोएडा

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल पर फ्लैट नं. एफएफ-2 (एमआईजी) जिसका सुपर कवर्ड एरिया 700 स्ववे. फीट जो 65.03 स्ववे.मीटर्स के समकक्ष (सामने बाएं हाथ की ओर) छत के अधिकार के बिना, प्लॉट नं. बी-58 पर निर्मित, ब्लॉक-बी, खसरा नं. 409 और 410 एसएलएफ वेद विहार में स्थित, परगना लोनी, गाज़ियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश।

	सही/-
दिनांक : 27.04.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान ः गाज़ियाबाद	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्जा सुचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रवीन्द्र प्रसाद और खुशबू को 27.05.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00478312 की राशि रू. 8,32,016,86 (रूपये आठ लाख बत्तीस हजार सोलह और छियासी पैसे मात्र) और 23.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.04.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 8,32,016.86 (रूपये आठ लाख बत्तीस हजार सोलह और छियासी पैसे मात्र) 23.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय फ्लैट बेअर	ोंग नं. जी.एफ1, एल.आई.जी., तल मंजिल छत के अधिकार बिना, बाएं हाथ की
ओर, जिसका कुल अं	र कवर्ड क्षेत्र 325 स्क्वे. फीट यानी 30.19 स्क्वे. मीटर्स, आवासीय प्लॉट नं. डी-59 में
	र्व 100 स्ववे. यार्डस, खसरा नंबर 210/2 में शामिल, "एस.एल.एफ वेद विहार", गौंव
सादुलाबाद, परगना अ सीमा इस प्रकार है:-	र तहसील लोमी, जिला गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद-201012, उत्तर प्रदेश और फ्लैट की
पर्व - सामान्य मार्ग अ	और सोदियाँ और फ्लैट नंबर जी एफ-२ (एल आई जी)

पश्चिम : प्लॉट नंबर डी-58

त्तर	: प्लॉट नंबर डी-64
हि सण	: 9 मीटर चौडी सडक

दिनांक : 27.04.2024

स्थान : गाजियाबाद

सही/

प्राधिकत अधिकारी

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

जब कि.

सही/ प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

जार समात के साल करहे मा साल साथ कर 1
स और उनचास पैसे मात्र) 02.02.2024 ^{हे}
कायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।
भधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन